#### **GHCL Limited**



March 2, 2020

फाल्गुन - शुक्लपक्ष – सप्तमी विक्रम सम्वत २०७६

#### National Stock Exchange of India

Limited

"Exchange Plaza"
Bandra – Kurla Complex,

Bandra (E), Mumbai – 400 051

**NSE Code: GHCL** 

**BSE Limited** 

Corporate Relationship Department,

1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building,

P.J. Towers,

Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

**BSE Code: 500171** 

Dear Sir/Madam,

# Sub: Filing of Post Offer Public Advertisement for Buyback of equity shares of the Company

In continuation to our communication dated February 28, 2020 regarding Closure of Buy-back offer of Equity Shares of the Company. We would like to inform that as per the requirement of Regulation 24(vi) of the SEBI (Buyback of Securities) Regulations, 2018, we have made post offer public advertisement for Buyback of equity shares dated February 28, 2020 and same was published in following newspapers on February 29, 2020;

- 1. Financial Express Newspaper (English All edition)
- 2. Financial Express Newspaper (Gujarati Ahmedabad edition)
- 3. Jansatta Newspaper (Hindi All edition)

Copies of said newspaper public advertisement are enclosed for your reference and record.

In addition to above, copy of undertaking given by Company and Merchant banker are also enclosed for your reference & record.

In case you need any further information, please let us inform.

For GHCL Limited

**Bhuwneshwar Mishra** 

Sr. General Manager & Company Secretary

B- 38, GHCL House, Institutional Area, Sector- 1, Noida, (U.P.) - 201301, India. Ph.: +91-120-2535335, 4939900, Fax: +91-120-2535209 CIN: L24100GJ1983PLC006513, E-mail: ghclinfo@ghcl.co.in, Website: www.ghcl.co.in

# Kotak: India has to choose between US, China tech

Pune, February 27

KOTAK MAHINDRA BANK chief Uday Kotak said on Friday that India will have to choose between Western tech systems and Chinese ones in the next two years. The veteran banker said a lot would be riding on 5G

technology. The decision would depend on how the rest of the world deals with the two systems, Kotak said in response to a query on emergence of technology in the financial sector at an event in Pune.

India has a tough choice to make, keeping in mind economic and political alignments which could change in

1. THE BUY BACK

2. DETAILS OF THE BUY BACK

Back (defined hereinafter) by GHCL Limited ("Company").

used herein have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement.

of the Buy Back was issued to the Stock Exchanges on Friday, February 28, 2020.

Limited ("Company's Broker") and excludes Transaction Costs.

with the provisions of the Buy Back Regulations.

Particulars

Issued, Subscribed and Paid-up share capital

CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

was bought in the Buy Back is not known.

("Post Buy Back") is set forth below:-

Authorised share capital

proposition that the Chinese 5G brings is that it is cheaper and important for India's competitiveness, according to the banker. "We will have to find a way to have good relationship with China for our competitiveness", he said.

Kotak was speaking at the Asia Economic Dialogue on Asia and the Emerging International Trading System organised by the Ministry of External Affairs and the Pune International Centre. He said India is at the cusp of making serious choices in the financial

The banker said India needs to ask if the move to nationalise banks in 1969 — which The veteran banker says a consolidation is happening in many sectors in the country

put taxpayer money into stateowned banks, has been giving returns to taxpayers.

He spoke in favour of a 6:3:3 formula where only six large public sector banks would remain, three would be publicly-owned but below 50% and with a broadbased ownership, and three slots for out of the box transparent

This would increase the competitiveness and quality of India's banks, Kotak said.

A similar consolidation is

happening in every sector in the country where Darwin's survival of the fittest theory is at work, he suggested. "Telecom is down from 13 players to three, wind energy sector is down from 19 players to three. Sector after sector has seen consolidation but though not through combination," he said. Kotak expects consolidation in the financial and real estate sectors to continue.

On the cost of capital in the country, Kotak said real interest rates are finally beginning to come down and cited how have erred in over-estimating inflation.

Brexit scenario, London could become an alternative financial centre for Asia. He said India needs to make

it worthwhile for people to take risks. A lot of domestic there is a need to fix goverbanker said.

# open for subscription between March 2-5 PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, February 28

**SBI CARDS AND** Payment Services' initial public offer of around Rs 9,000 crore will open for subscription on March 2 amid volatile stock markets due to deepening concerns over coronavirus outbreak.

For qualified institutional buyers (QIBs), the subscription will close on March 4 while the issue closes on March 5, SBI

apollo

Cards and Payment Services chief executive Hardayal Prasad said on Friday. SBI Cards has set the price band at ₹50-755 for the share sale.

SBI Cards and Payment Services' IPO

be used to augment the firm's capital base to meet future capital requirement.

the proceeds from the IPO will

According to drafts paper,

"The net proceeds are pro-

posed to be utilised for augmenting our Company's capital base which will be utilised towards company's business and growth including towards extending credit to our customers, meeting our operating expenditure and future working capital requirements which are expected to arise out of the growth of our business,"it said.

# SARASWATI COMMERCIAL (INDIA) LIMITED

Regd. Office: 209/210, Arcadia Building, 2" Floor, 195, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Telephone: 022-40198600, Fax: 40198650, Email Id: saraswati.investor@gcvl.in, CIN: L51909MH1983PLC166605

## NOTICE

Extra Ordinary General Meeting Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of Saraswati Commercial (India) Limited will be held on Thursday, the 26" March, 2020 at 12.30 p. m. at Oricon House, 6" Floor,

K. Dubhas Marg, Fort, Mumbai-400001 to transact the business as set

out in the Notice of the meeting. The copy of the Notice of EGM and instruction for remote e-voting, along with attendance slip and proxy form has been sent electronically to all those members who have registered their email ID's with the Company and physical copies have been dispatched to all the members in permitted mode on 28" February, 2020. A member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a member of the company. Proxies in order to be effective, should be duly stamped, completed, signed and deposited at the registered office of the company not less than 48 hours before the meeting.

Pursuant to the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules made thereunder, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is providing its shareholders the facility to cast their votes by electronic means through the remote e-voting provided by NSDL on all the resolutions proposed to be passed at the Extra Ordinary General Meeting. The details of

 The remote e-voting period will commence on Monday, 23<sup>rd</sup> March, 2020 at 9.00 a.m. and ends on Wednesday, 25" March, 2020 at 5.00 p.m.

2. The remote e-voting shall not be allowed beyond the specified date (25° March, 2020) and time (05:00 p.m.);

3. The voting rights of the members shall be as per the number of equity shares held by the members as on the cut-off date which is Thursday, Any person, who acquires shares of the Company and becomes member

of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or saraswati.investor@gcvl.in/csg-Members present at the meeting who have not cast their vote by remote e-

voting shall be provided the facility to vote through ballot paper. A member may participate in the EGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cutoff date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM through ballot paper.

8. The notice of the Extra Ordinary General Meeting and the procedure for E-

voting have been sent to Members and are also available on the

Company's website at www.saraswaticommercial.com. In case of any queries or grievances regarding e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at https://www.evoting.nsdl.com/ or contact the toll free no.: 1800-222-990 9. In case of any queries or grievances pertaining to the facility for voting by

electronic means, please contact Ms. Sarita Mote, Assistant Manager, National Securities Depository Ltd, 4th Floor, Awing, Trade World, Kamala Mills Compound, Sanapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013. contact details: 022 24994545 or e-mail at evoting@nsdl.co.in.

By Order of the Board of Directors,

Ritesh Zaveri Chairman

Place: Mumbai Date: 28th February, 2020 DIN: 00054741

Union Mutual Fund

Union Asset Management Company Private Limited

Investment Manager for Union Mutual Fund

Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201

Registered Office: Unit 503, 5" Floor, Leela Business Park.

Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059

Toll Free No. 1800 2002 268/1800 5722 268;
 Non Toll Free. 022-67483333;

• Fax No: 022-67483401; • Website: www.unionmf.com; • Email: investorcare@unionmf.com

NOTICE CUM ADDENDUM TO THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION (SAI), SCHEME INFORMATION DOCUMENT (SID) AND KEY INFORMATION MEMORANDUM (KIM) OF ALL SCHEMES ^ OF UNION MUTUAL FUND

Sd/-

1. Mandatory updation of Permanent Account Number (PAN) and completion of Know Your Customer (KYC) requirements for processing of mutual fund transactions

NOTICE is hereby given that, with reference to the existing provisions of the SAI, SID and KIM of the Schemes of Union Mutual Fund in relation to updation of Permanent Account Number (PAN) in non-PAN exempt folios and completion of applicable KYC requirements for all folios, it is reiterated that it is mandatory to update PAN in non-PAN exempt folios and to complete KYC requirements for all unit holders, including for all joint holders and the guardian in case of folio of a minor investor.

Accordingly, financial transactions (including redemptions, switches and all types of systematic plans) and non-financial requests will not be processed if:

the unit holders have not updated PAN in non-PAN exempt folios or

ii) the unit holders have not completed applicable KYC requirements.

Unit holders are advised to use the PAN updation Form (for updating PAN) and the applicable KYC Form (for completing the KYC requirements) which are available on the AMC's website www.unionmf.com, and submit the form at any of the Official Points of Acceptance of Union Mutual Fund. Further, upon updation of PAN details with KYC Registration Agency (i.e. KRA-KYC)/ Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest (CERSAI) (i.e. CKYC), the unit holders are requested to intimate the AMC/ Registrar and Transfer Agent of Union Mutual Fund their PAN information (if not already updated) along with the folio details for updation in the records of Union Mutual Fund.

Investors are requested to take note of the change in the address of the below mentioned Customer Service Center and Official Point of Acceptance of Union Mutual Fund, applicable to all the Schemes ^ of Union Mutual Fund, with effect from March 02, 2020:

2. Change in address of Customer Service Center and Official Point of Acceptance of Union Mutual Fund:

Location	Old Address	New Address
New Delhi	Flat No. 603, 6th Floor, Surya Kiran Building, 19, Kasturba Gandhi Marg, Connaught Place, New Delhi -110001.	

Change in address of Customer Service Center and Official Point of Acceptance of Computer Age Management Services ("CAMS"):

Investors are requested to take note of the change in the address of the below mentioned Customer Service Center and Official Point of Acceptance of CAMS, applicable to all the Schemes ^ of Union Mutual Fund, with effect from March 16, 2020:

Location Old Address		New Address			
	Kalika Temple Street, Beside SBI BAZAR Branch, Berhampur - 02, Ganjanm, Odisha - 760 001.	Kalika Temple Street, Ground Floor, Beside SBI BAZAR Branch, Berhampur, Odisha - 760 002.			

It may be noted that necessary/incidental changes, if any, shall be made in the SAI, SID and KIM of all the Schemes of Union Mutual Fund in the above regard.

The SAI, SID and KIM of all the Schemes of Union Mutual Fund will stand modified to the extent mentioned above. This Addendum forms an integral part of the SAI, SID and KIM of all the Schemes of Union Mutual Fund.

All other terms and conditions of the SAI, SID and KIM of all the Schemes of Union Mutual Fund will remain unchanged.

For Union Asset Management Company Private Limited

(Investment Manager for Union Mutual Fund)

**Authorised Signatory** 

^ including Union Midcap Fund. MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Statutory Details: Constitution: Union Mutual Fund has been set up as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882; Sponsors: Union Bank of India and Dai-ichi Life Holdings, Inc; Trustee: Union Trustee Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198198], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability: Investment Manager: Union Asset Management Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability.

Copy of all Scheme Related Documents can be obtained from any of our AMC offices/Customer Service Centres/distributors as well as from our website www.unionmf.com.

#### **FE BUREAU** central banks across the world the future, he added. The PPP banks.

financialexp.ep.

Place: Noida

Date : February 28, 2020

Mr. Raman Chopra Chief Finance Officer & (DIN: 00954190)

Mr. Bhuwneshwar Mishra Sr. General Manager & Company Secretary & Compliance Officer (PAN: AIWPM9469M)

PRESSMAN

Place: Mumbai

Date: February 28, 2020

where Darwin's survival of the fittest theory is at work

GHCL LIMITED

Registered Office: GHCL House, Opp Punjabi Hall, Near Navrangpura Bus Stand,

Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat - 380 009

Corporate Office: GHCL House, B-38 Institutional Area, Sector 1, Noida - 201301

Compliance Officer: Mr. Bhuwneshwar Mishra

Tel.: 0120 3358143; Fax: 0120 2535209; CIN: L24100GJ1983PLC006513;

Website: www.ghcl.co.in; E-mail: secretarial@ghcl.co.in

PUBLIC ANNOUNCEMENT

POST BUY BACK PUBLIC ADVERTISMENT FOR THE ATTENTION OF

THE SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF GHCL LIMITED

This post Buy Back public advertisement ("Post Buy Back Public Announcement") is being made in accordance with the Regulation 24

(vi) and other applicable provisions of the Securities Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 2018 as amended

(including any statutory modification(s), or re-enactment for the time being in force) ("Buy Back Regulations") regarding completion of Buy

This Post Buy Back Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated January 24, 2020

("Public Announcement"), issued in connection with the Buy Back. Unless specifically defined herein, capitalized terms and abbreviations

1.1. The Board of Directors of the Company ("Board") at their meeting held on January 23, 2020, in accordance with Article 26 of the Articles

of Association of the Company and pursuant to the provisions of Sections 68, 69, 70 and other applicable provisions, if any, of the

Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and in compliance with the Buy Back Regulations, Securities and Exchange Board

of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("SEBI LODR Regulations"), Reserve Bank

of India ("RBI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), Registrar of Companies, Ahmedabad (the "ROC"), Stock Exchanges

where the Equity Shares of the Company are listed etc. as may be required and further subject to such conditions as may be prescribed

while granting such Board approval which may be agreed by the Board of Directors of the Company, approved the Buy Back of Company

fully paid-up Equity Shares for an aggregate amount not exceeding ₹ 60,00,00,000/- (Rupees Sixty Crores only), excluding transaction

costs ("Transaction Costs") viz. brokerage, cost, fees, turnover charges and other applicable taxes such as securities transaction tax,

goods and service tax (if any) and income tax, stamp duty, advisors fees, filing fees and other incidental and related expenses etc.

("Maximum Buy Back Offer Size"), for a price not exceeding ₹ 250/- (Rupees Two Hundred and Fifty only) per Equity Share ("Maximum

Buy Back Offer Price"), subject to Buy Back not exceeding 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares of the Company (hereinafter

referred to as the "Maximum Buy Back Shares") from all shareholders of the Company excluding promoters ("Promoters"), promoter

the Company has utilized ₹ 56,80,97,560/- (Rupees Fifty Six Crores Eighty Lakhs Ninety Seven Thousand Five Hundred Sixty only).

represents 94.68% of Maximum Buy Back Offer Size (excluding Transaction Costs) authorised for the Buy Back with an unutilized

balance amount of ₹ 3,19,02,440/- (Rupees Three Crores Nineteen Lakhs Two Thousand Four Hundred Forty only) till February 28, 2020

Back Shares till February 28, 2020, the Company decided to close the Buy Back on Friday, February 28, 2020. The intimation for closure

group and persons who are in control of the Company in accordance with the Buy Back Regulations and the Act ("Buy Back").

and have bought back 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares, which is 100% of the Maximum Buy Back Shares.

1.4. The total number of shares bought back under the Buy Back is 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares.

The Buy Back commenced on Monday, February 03, 2020 and closed on Friday, February 28, 2020. Till the date of closure of Buy Back

1.3. In view of the fact that the Company has bought back 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares, which is 100% of the Maximum Buy

2.1. The Company bought back an aggregate of 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares represents 100% of the Maximum Buy Back

2.2. The pay-out formalities has been and shall be completed as per settlement mechanism with the Stock Exchanges. The Company is in

2.3. All Equity Shares bought back were in the demat segment from the Stock Exchanges. As the Buy Back was done from the open market

3.1. The capital structure of the Company, as on the date of the Public Announcement ("Pre Buy Back") and as on February 28, 2020

No. of Equity Shares

17,50,00,000

9,82,13,286

Buy Back") is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.

3.2. The shareholding pattern of the Company Pre Buy Back and Post Buy Back, is as under:

process of extinguishing 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares that have been bought back and will be extinguished in accordance

through the Stock Exchanges, the identity of shareholders from whom Equity Shares exceeding one per cent of the total Equity Shares,

Pre Buy Back

\*The Company is in the process of extinguishing 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares that have been bought back and will be

extinguished in accordance with the provisions of the Buy Back Regulations. The share capital post completion of the Buy Back ("Post

Shares, utilizing a total of ₹ 56,80,97,560/- (Rupees Fifty Six Crores Eighty Lakhs Ninety Seven Thousand Five Hundred Sixty only)

(excluding Transaction Costs), which represents 94.68% of the Maximum Buy Back Offer Size. The price at which the Equity Shares were bought back was dependent on the price quoted on the Stock Exchanges. The highest price at which the Equity Shares were bought back was ₹ 186.85 per Equity Share while the lowest price was ₹ 169.40 per Equity Share. The Equity Shares were bought back at an average price of ₹ 177.53 per Equity Share. These prices are based on contract notes issued by Emkay Global Financial Services

Kotak said that in a post-

savings are risk averse and

nance systems in the country and restore confidence so that savers invest in the market, the

**APOLLO TYRES LTD** 

Regd. Office: 3rd Floor, Areekal Mansion, Near Manorama Junction, Panampilly Nagar, Kochi- 682036 (Kerala) Tel: +91 484 4012046 Fax: +91 484 4012048 Email: investors@apollotyres.com | Web: apollotyres.com NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND

# **REMOTE E-VOTING INFORMATION**

#### The notice is hereby given that:

The Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company is scheduled to be held on Monday, March 23, 2020 at 12:00 Noon at Lake Side Hall. Bolgatty Palace & Island Resort, KTDC Ltd., Mulavukad P.O., Kochi-682504, (Kerala) to transact the businesses, as set out in the Notice of EGM, which has been dispatched to the Members of the Company. The Electronic copy of the Notice of EGM along with Attendance Slip and Proxy Form of the Company have been sent to all the Members whose Email IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s) for communication purposes, unless any Member has requested for a hard copy of the same. The dispatch/emailing of Notices has been completed by the Company on February 28, 2020. The EGM Notice is also available on the Company's website www.apollotyres.com and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) viz. www.evoting.nsdl.com.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is offering e-Voting to all its Members. The special businesses as set out in the EGM Notice may be transacted through voting by electronic means through NSDL

The Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-Voting"). The remote e-Voting facility commences on March 20, 2020 (10:00 AM) and ends on March 22, 2020 (5:00 PM). Remote e-Voting shall not be allowed beyond the said date and time. The persons whose name are recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date of March 16, 2020, shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as voting through polling paper in the EGM. The e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member. the Member shall not be allowed to change it subsequently.

The facility of voting through poll paper shall be made available at the EGM venue. The Members who have cast their vote by remote e-Voting may attend and participate in the EGM but shall not be entitled to vote again in the meeting. Any person who acquires shares and becomes the Member of the Company after dispatch of EGM Notice and is holding shares as on the cut-off date i.e. March 16, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in and then cast his vote accordingly. However, if a person is already registered with NSDL for e-Voting then the existing user ID and password can be used for casting vote.

In case of any grievance connected with the facility for voting by electronic means, members can directly contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg. Lower Parel. Mumbai- 400 013. Email: evoting@nsdl.co.in, Toll free no- 1800-222-990. Members may also write to the Company Secretary at the Email ID: investors@apollotyres.com.

For Apollo Tyres Ltd. Seema Thapar Company Secretary

Date: February 28, 2020 Place: Gurgaon

₹ in cr.

175.00

Post Buy Back

No. of Equity Shares

17,50,00,000

9.50.13.286\*

Pre Buy Back(1) Post Buy Back(2)

₹ in cr.

175.00

98.21

			The second contract of	
Shareholders	No. of Equity Shares	% of Equity Shares	No. of Equity Shares	% of Equity Shares
Promoters	1,81,93,310	18.52	1,81,93,310	19.15
Public Shareholding				
Banks, Financial Institutions, Mutual Funds	1,33,00,898	13.54		80.85
Individuals	2,25,71,993	22.98	7,68,19,976	
Indian Public & Corporates	2,07,66,359	21.14		
Insurance Companies	33,66,423	3.43		
IEPF	8,86,602	0.90		
Foreign Institutional Investors	1,55,48,358	15.83		
NRIs	15,82,839	1.61		
Others	19,96,504	2.03		
Total	9.82.13.286	100.00	9.50.13.286	100.00

 As on January 17, 2020. The Company is in the process of extinguishing 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares that have been bought back and will be extinguished in accordance with the provisions of the Buy Back Regulations. The share capital post completion of the Buy Back ("Post

Buy Back") is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company. MANAGER TO THE BUY BACK

SEBI Reg. No.: INM000011229 The Ruby, 7th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400 028

CIN: L67120MH1995PLC084899

**EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED** 

Website: www.emkayglobal.com Contact Person: Mr. Deepak Yadav Tel: 91 22 6612 1212 Fax: 91 22 6624 2355

DIRECTORS' RESPONSIBILITY

E-mail: ghcl.buyback@emkayglobal.com For further details, please refer to the Company's website (https://www.ghcl.co.in/buyback) and the website of the Stock Exchanges (i.e., www.nseindia.com and www.bseindia.com)

As per Regulation 24(i)(a) of the Buy Back Regulations, the Board accepts full responsibility for the information contained in this Post Buy Back Public Announcement and confirms that the information included herein contains true, factual and material and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of GHCL Limited

sd/-Mr. R S Jalan Managing Director (DIN: 00121260)

Executive Director (Finance)

# लोगों को उकसा कर विपक्ष करा रहा दंगे: शाह

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 28 फरवरी।

ओड़ीशा की यात्रा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संशोधित नागरिकता कानन (सीएए) के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। भुवनेश्वर में आयोजित जनसभा में उन्होंने शुक्रवार को आरोप लगाया कि विपक्षी दल नागरिकता कानून पर लोगों को उकसा कर दंगे करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर लोगों को बाहर आना चाहिए और जो लोग दिक्कत पैदा कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि संशोधित नागरिकता कानून का कौन सा उपबंध लोगों की नागरिकता छीनने की बात करता है।

उन्होंने आरोप लगाया, 'विपक्ष के लोग संशोधित नागरिकता कानून को लेकर भ्रांति फैला



*पूछा*, कानून का कौन-सा उपबंध लोगों की नागरिकता छीनने की बात करता है लोगों से कहा कि विपक्ष से सवाल पूछें

रहे हैं कि संशोधित नागरिकता कानून से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। वे (विपक्ष) लोगों को उकसा रहे हैं, दंगे करा रहे हैं।' शाह ने कहा कि इस कानून से किसी भारतीय मुस्लिम की नागरिकता नहीं जाएगी।

उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने पूर्वी भारत के विकास के दरवाजे खोले। कांग्रेस की सरकारें पिछले 55 साल में जो करने में विफल रही, उसे हमने पांच साल में कर दिया। नरेंद्र मोदी

सरकार ने पिछले 70 सालों से लटके कुछ मसलों का समाधान किया है, जिसमें अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाना शामिल है, जिसके

हमेशा मुझे अपना दुसरा घर लगा।

# ममता, नीतीश और नवीन ने उठाए अपने राज्यों के मुद्दे

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 28 फरवरी।

भुवनेश्वर में गृह मंत्रालय की पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (ईजेडसी) की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ओडीशा के नवीन पटनायक और बिहार के नीतीश कुमार शामिल हुए। तीनों मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से अपने राज्य की मांगों के मुद्दे

मसलन, बंगाल और बिहार ने जीएसटी में हिस्सेदारी और कोयला रॉयल्टी का मुद्दा उठाया। ओड़ीशा ने विशेष दर्ज देने और वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग की।

बैठक में ममता बनर्जी ने केंद्र द्वारा कथित तौर पर उनके राज्य की अनदेखी







बैटक के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दोपहर का भोज दिया, जिसमें अमित शाह और राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए

किये जाने का मुद्दा भी उठाया। इस बैठक में सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। हालांकि, ममता बनर्जी ने दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा का मुद्दा उठाया चिंता जताते हुए कि केंद्र को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे स्थिति अब और न बिगड़े।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दोपहर का भोज दिया, जिसमें अमित शाह और राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए।

ममता बनर्जी ने कहा कि बैठक में सीएए या एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि यह एजंडे में नहीं था। उन्होंने कहा, 'न उन्होंने मुद्दा उठाया न मैंने। यह एजंडे में भी नहीं था। यह बैठक उसके लिए नहीं था।' नीतीश कुमार ने विपक्ष द्वारा अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर कहा कि पहले समस्या का समाधान होना चाहिए और उसके बाद हम राजनीति पर चर्चा करेंगे।

## ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) (नियम-8(1))

जबकि अधोहस्ताक्षरी **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स**, के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभृतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों का पूर्नगठन एवं प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा

ऋणी / गारन्टर के नाम					
<u>ऋणीः</u> मैसर्स एम.आईपी.एस. एजुकेश					
ट्रस्टी), पता 1: रजिस्ट्रर्ड ऑफिस: 1/	2 खसरा न	10 95 ए एवं बी,			
ग्राम दिलवारा, रोहटा रोड, मेरठ।	21280	520			

**ट्रस्टी/बंधककर्ता/गारन्टरः** (मैसर्स एम.आईपी.एस. एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट): श्री बुजभूषण पुत्र काले, पताः ग्राम दिलवारा, रोहटा

**ट्रस्टी ∕बंधककर्ता ∕गारन्टरः** (मैसर्स एम.आईपी.एस. एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट): श्री रामोतार शर्मा पुत्र बृजभूषण, पताः ग्रामदिलवारा,

पता 1: मीहल्ला साह्यन, आर्य समाज के पास, चांदपुर, जिला बिजनौर-246725, पता 2: फ्लैट नं0 टी-4, तृतीय फ्लोर, सांई

ट्रस्टी/बंधककर्ता/गारन्टरः (मैसर्स एम.आईपी.एस. एज्केशनल चैरिटेबल ट्रस्ट): श्री अजय कुमार गर्ग पुत्र श्री हरि प्रकाश, पता 1: 148, निकट पुरबी अनाज मंडी, गुलावठी रूलर नाथूगढ़ी, गुलावठी,

तहत कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। अमित शाह ने कहा कि मोदी अपनी सरकार

> के दूसरे कार्यकाल में एक बहुत बड़ी योजना लाए हैं, जिसके तहत 2024 तक देश के हर घर में नल से स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाना है। शाह ने कहा, 'इस योजना का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी राज्य हो होने वाला है तो वह ओडीशा है।' उन्होंने कहा, 'लोकसभा चुनाव के बाद मैं पहली बार ओड़ीशा आया हूं। मैं भाजपा की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आठ सीटों पर हमे विजय दिलाई।' उन्होंने कहा कि ओड़ीशा कभी भी मुझे गुजरात से अलग नहीं लगा और यह

# GHCL LIMITED

Registered Office: GHCL House, Opp Punjabi Hall, Near Navrangpura Bus Stand, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat - 380 009

Corporate Office: GHCL House, B-38 Institutional Area, Sector 1, Noida - 201301 Compliance Officer: Mr. Bhuwneshwar Mishra Tel.: 0120 3358143; Fax: 0120 2535209; CIN: L24100GJ1983PLC006513;

Website: www.ghcl.co.in; E-mail: secretarial@ghcl.co.in

## PUBLIC ANNOUNCEMENT

POST BUY BACK PUBLIC ADVERTISMENT FOR THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF GHCL LIMITED

This post Buy Back public advertisement ("Post Buy Back Public Announcement") is being made in accordance with the Regulation 24 (vi) and other applicable provisions of the Securities Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 2018 as amended (including any statutory modification(s), or re-enactment for the time being in force) ("Buy Back Regulations") regarding completion of Buy Back (defined hereinafter) by GHCL Limited ("Company").

This Post Buy Back Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated January 24, 2020, ("Public Announcement"), issued in connection with the Buy Back. Unless specifically defined herein, capitalized terms and abbreviations used herein have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement.

### 1. THE BUY BACK

- 1.1. The Board of Directors of the Company ("Board") at their meeting held on January 23, 2020, in accordance with Article 26 of the Articles of Association of the Company and pursuant to the provisions of Sections 68, 69, 70 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and in compliance with the Buy Back Regulations, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("SEBI LODR Regulations"), Reserve Bank of India ("RBI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), Registrar of Companies, Ahmedabad (the "ROC"), Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed etc. as may be required and further subject to such conditions as may be prescribed while granting such Board approval which may be agreed by the Board of Directors of the Company, approved the Buy Back of Company fully paid-up Equity Shares for an aggregate amount not exceeding ₹ 60,00,00,000/- (Rupees Sixty Crores only), excluding transaction costs ("Transaction Costs") viz. brokerage, cost, fees, turnover charges and other applicable taxes such as securities transaction tax, goods and service tax (if any) and income tax, stamp duty, advisors fees, filing fees and other incidental and related expenses etc. ("Maximum Buy Back Offer Size"), for a price not exceeding ₹ 250/- (Rupees Two Hundred and Fifty only) per Equity Share ("Maximum Buy Back Offer Price"), subject to Buy Back not exceeding 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares of the Company (hereinafter referred to as the "Maximum Buy Back Shares") from all shareholders of the Company excluding promoters ("Promoters"), promoter group and persons who are in control of the Company in accordance with the Buy Back Regulations and the Act ("Buy Back").
- 1.2. The Buy Back commenced on Monday, February 03, 2020 and closed on Friday, February 28, 2020. Till the date of closure of Buy Back, the Company has utilized ₹ 56,80,97,560/- (Rupees Fifty Six Crores Eighty Lakhs Ninety Seven Thousand Five Hundred Sixty only), represents 94.68% of Maximum Buy Back Offer Size (excluding Transaction Costs) authorised for the Buy Back with an unutilized balance amount of ₹ 3,19,02,440/- (Rupees Three Crores Nineteen Lakhs Two Thousand Four Hundred Forty only) till February 28, 2020 and have bought back 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares, which is 100% of the Maximum Buy Back Shares.
- 1.3. In view of the fact that the Company has bought back 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares, which is 100% of the Maximum Buy Back Shares till February 28, 2020, the Company decided to close the Buy Back on Friday, February 28, 2020. The intimation for closure of the Buy Back was issued to the Stock Exchanges on Friday, February 28, 2020.
- 1.4. The total number of shares bought back under the Buy Back is 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares.

## 2. DETAILS OF THE BUY BACK

- 2.1. The Company bought back an aggregate of 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares represents 100% of the Maximum Buy Back Shares, utilizing a total of ₹ 56,80,97,560/- (Rupees Fifty Six Crores Eighty Lakhs Ninety Seven Thousand Five Hundred Sixty only) (excluding Transaction Costs), which represents 94.68% of the Maximum Buy Back Offer Size. The price at which the Equity Shares were bought back was dependent on the price quoted on the Stock Exchanges. The highest price at which the Equity Shares were bought back was ₹ 186.85 per Equity Share while the lowest price was ₹ 169.40 per Equity Share. The Equity Shares were bought back at an average price of ₹ 177.53 per Equity Share. These prices are based on contract notes issued by Emkay Global Financial Services Limited ("Company's Broker") and excludes Transaction Costs.
- 2.2. The pay-out formalities has been and shall be completed as per settlement mechanism with the Stock Exchanges. The Company is in process of extinguishing 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares that have been bought back and will be extinguished in accordance with the provisions of the Buy Back Regulations.
- 2.3. All Equity Shares bought back were in the demat segment from the Stock Exchanges. As the Buy Back was done from the open market through the Stock Exchanges, the identity of shareholders from whom Equity Shares exceeding one per cent of the total Equity Shares,

### was bought in the Buy Back is not known. 3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1. The capital structure of the Company, as on the date of the Public Announcement ("Pre Buy Back") and as on February 28, 2020 ("Post Buy Back") is set forth below:-

Particulars	Pre Buy Back		Post Buy Back		
Particulars	No. of Equity Shares	₹ in cr.	No. of Equity Shares	₹ in cr.	
Authorised share capital	17,50,00,000	175.00	17,50,00,000	175.00	
Issued, Subscribed and Paid-up share capital	9,82,13,286	98.21	9,50,13,286*	95.01	

\*The Company is in the process of extinguishing 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares that have been bought back and will be extinguished in accordance with the provisions of the Buy Back Regulations. The share capital post completion of the Buy Back ("Post Buy Back") is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.

3.2. The shareholding pattern of the Company Pre Buy Back and Post Buy Back, is as under

	Pre Buy Back <sup>(1)</sup>		Post Buy Back <sup>(2)</sup>	
Shareholders	No. of Equity Shares	% of Equity Shares	No. of Equity Shares	% of Equity Shares
Promoters	1,81,93,310	18.52	1,81,93,310	19.15
Public Shareholding				
Banks, Financial Institutions, Mutual Funds	1,33,00,898	13.54		80.85
Individuals	2,25,71,993	22.98		
Indian Public & Corporates	2,07,66,359	21.14		
Insurance Companies	33,66,423	3.43	7,68,19,976	
IEPF	8,86,602	0.90		
Foreign Institutional Investors	1,55,48,358	15.83		
NRIs	15,82,839	1.61		
Others	19,96,504	2.03		
Total	9,82,13,286	100.00	9,50,13,286	100.00

As on January 17, 2020.

2. The Company is in the process of extinguishing 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares that have been bought back and will be extinguished in accordance with the provisions of the Buy Back Regulations. The share capital post completion of the Buy Back ("Post Buy Back") is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.

MANAGER TO THE BUY BACK



**EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED** CIN: L67120MH1995PLC084899

SEBI Reg. No.: INM000011229 The Ruby, 7th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400 028 Website: www.emkayglobal.com Contact Person: Mr. Deepak Yadav Tel: 91 22 6612 1212 Fax: 91 22 6624 2355

E-mail: ghcl.buyback@emkayglobal.com For further details, please refer to the Company's website (https://www.ghcl.co.in/buyback) and the website of the Stock Exchanges

(i.e., www.nseindia.com and www.bseindia.com). 6. DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buy Back Regulations, the Board accepts full responsibility for the information contained in this Post Buy Back Public Announcement and confirms that the information included herein contains true, factual and material and does not contain any misleading information.

# For and on behalf of the Board of GHCL Limited

Mr. R S Jalan Managing Director (DIN: 00121260)

Mr. Raman Chopra Chief Finance Officer & Executive Director (Finance) (DIN: 00954190)

Mr. Bhuwneshwar Mishra Sr. General Manager & Company Secretary & Compliance Officer (PAN: AIWPM9469M)

PRESSMAN

Place: Noida Date: February 28, 2020

नर्ड दिल्ली

# (भारत सरकार का उपक्रम)

समाधान, वसूली एवं विधि समूह, मेरठ -495/1, आरपीजी टॉवर, मंगल पाडेय नगर, मेरठ, फोन नं0 0121-4011928-12

13 (12) के सहपठित नियम (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाते के सामने उल्लेखित तिथि को बैंक द्वारा मांग सूचना जारी की गयी थी, जिसमें उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के अन्दर बकाये का भूगतान करने की मांग की गयी थी। ऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर द्वारा राशि के चुकता न कर सकने पर एतद द्वारा ऋणी व आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के सहपठित नियम 8 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है । उधारकर्ता को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य तौर पर सचेत किया जाता है कि वे इस सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें और इस सम्पत्ति के बारे में किसी प्रकार का सौदा नीचे लिखे राशि और ब्याज तथा अन्य खर्चों के लिये **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा कार्यालय शास्त्री नगर, मेरठ** के प्रभारों के अधीन होगा। ''उधारकर्त्ता(ऑ) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।''

ट्रस्टी/बंधककर्ता/गारन्टरः (मैससे एम.आईपी.एस. एजुकेशनल

चैरिटेबल ट्रस्ट): श्रीमती रेन् शर्मा पत्नी सुकुमार पल्लव, पता: मकान नं0 198, गली नं0 7, जयदेवी नगर, मेरठ।

ट्रस्टी/बंधककर्ता/गारन्टरः (मैसर्स एम.आईपी.एस. एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट): श्री शगुन अग्रवाल पुत्र अनिल कुमार अग्रवाल, पता 1: मकान नं0 37, आर.के. पुरम, दिल्ली रोड, मेरठ, पता 2: फ्लैट नं0 टी-4, तृतीय फ्लोर, सांई अपार्टमेंट, प्लॉट नं0 ए-52, सार्कत, मेरठ।

रोड, मेरठ।

रोहटा रोड, मेरठ। **ट्रस्टी∕बंधककर्ता∕गारन्टरः** (मैसर्स एम.आईपी.एस. एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट): श्री अंशुल अग्रवाल पुत्र अनिल कुमार अग्रवाल,

अपार्टमेंट, प्लॉट नं0 ए-52, साकेत, मेरठ।

1: दृष्टिबंधक ट्रस्ट की मौजूदा सभी अचल आस्तियां।

2: बंधक स्कूल की भूमि व भवन स्थित खसरा नं0 95 ए एवं 95बी, ग्राम दिलवारा, रोहटा रोड, परगना तहसील व जिला मेरठ, माप 0.4460 हेक्टेयर (0.2230 हेक्टयेर + 0.2230 हेक्टेबर), सम्पत्ति स्वामी मैसर्स एम.आईपी. एस. एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, रजिस्ट्रर्ड ऑफिसः 1/2 खसरा नं0 95 ए एवं बी, ग्राम दिलवारा, रोहटा रोड, मेरठ, सेटलर/ट्रस्टी श्रीमती रेनू शर्मा पत्नी श्री सुकुमार पल्लव, निवासी: मकान नं0 198, गली नं0 7, जय देवी नगर, मेरठ के माध्यम से। सीमायें

बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण

25.02.2020 1,53,39,892/ 30.11.2019 को + व्याज एंव अन्य खर्चे दिनांक 01.12.2019

प्राधिकृत अधिकारी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

-पूर्वः भीकम एवं मंजीत की भूमि, पश्चिमः बृज भूषण की भूमि, उत्तरः अजय कुमार की भूमि, दक्षिणः एमआईपीएस एज्केशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की भूमि।

(नोटः सम्पत्ति विक्रय विलेख का विवरण उप-निबन्धक मेरठ सदर-चतुर्थ कार्यालय में दस्तावेज नं0 4575, दिनांक 25.04.2015 एवं गिफ्ट विलेख उप-निबन्धक मेरठ सदर-चतुर्थ कार्यालय में दस्तावेज नं0 2474 दिनांक 30.04.2015 पर दर्ज है)

सम्पत्ति नं0 3: वंधक स्कूल की भूमि व भवन स्थित खसरा नं0 100, ग्राम दिलवारा, रोहटा रोड, परगना तहसील व जिला मेरठ, माप 0.0310 हेक्टेयर अर्थात 310.00 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी मैसर्स एम.आईपी.एस. एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, रजिस्ट्रर्ड ऑफिस: 1/2 खसरा नं0 95 ए एवं बी, ग्राम दिलवारा, रोहटा रोड, मेरठ, सेटलर/ट्रस्टी श्री संजीव अग्रवाल पुत्र श्री हरि प्रकाश अग्रवाल निवासी 688/6, शास्त्री नगर, मेरट। सीमायें:-भीकम व मंजीत की भूमि, पश्चिमः बुज भूषण की भूमि, उत्तरः एमआईपीएस चैरीटेबल ट्रस्ट की भूमि, दक्षिणः रोड

(नोट: सम्पत्ति विक्रय विलेख का विवरण उप-निबन्धक मेरठ सदर-चतर्थ कार्यालय में दस्तावेज नं0 4575. दिनांक 25.07.2015 पर दर्ज है)

सम्पत्ति नं0 4: बंधक आवासीय फ्लैट स्थित ततीय फ्लोर, नं0 टी-4, प्लॉट नं0 ए-52 का भाग, सांई अपार्टमेंट, सकेत, तहसील व जिला मेरठ, माप 116.12 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्री शगुन अग्रवाल पुत्र अनिल कुमार बुलन्दशहर-245408 पता 2: एल-457, शास्त्री नगर, मेरठ-250001 अग्रवाल, निवासी: मकान नं0 37, आर.के. पुरम, दिल्ली रोड, मेरठ। सीमायें:-पूर्व: अन्य का मकान, पश्चिम:

आम रास्ता एवं फ्लैट नं0 टी-2 एवं टी-3, उत्तरः अन्य की सम्पत्ति, दक्षिणः अन्य की सम्पत्ति नोटः सम्पत्ति विक्रय विलेख का विवरण उप-निबन्धक मेरठ -प्रथम कार्यालय में दस्तावेज नं0 7400 दिनांक 21.08.2015 पर दर्ज है)


दिनांक-25.02.2020

प्रकार है: -

स्थानः मेरठ

शैक्षिक संचार संकाय





(विज्ञापन संख्या 1/2020) शैक्षिक संचार संकाय (सीईसी), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के तहत एक निकाय, में (1) रखरखाव इंजीनियर-(एक पद-नियमित आधार) (अनारक्षित) वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 रु 67,700 - रु 2,08,700 / - सीधी भर्ती के आधार पर / प्रतिनियुक्ति / अवशोषण के आधार पर नियुक्ति । (2) लाइट बॉय (एक पद-नियमित आधार) (अनारक्षित) वेतन मैट्रिक्स स्तर−2 में ₹19,900 − 63,200 ∕ − सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति। (3) ड्राइयर − (एक पद−नियमित आधार) (अनारक्षित) वेतन मैट्रिक्स स्तर −2 में रु 19,900 − 63,200 ∕ − सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति। चयनित होने पर अभ्यार्थी को सीईसी कार्यालय, दिल्ली अथवा ईएमआरसी के रुडकी केन्द्र में तैनात किया जा सकता है। पदों का विवरण इस

क0 स0	पद का नाम	श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स स्तर	शैक्षिक योग्यता और अनुभव	भर्ती की अर्हताएं	आवेदन की आयु सीमा (अंतिम तिथि के समय)	
1	रखरखाव इंजीनियर	1—पद (अनारक्षित)	स्तर −11 ₹ 67,700 -2,08,700/	दूरसंचार / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में द्वितीय श्रणी रनातक, या इलेक्ट्रॉनिक्स सहित मीतिकी में रनातकोत्तर । टी वी स्टूडियो उपकरण / ध्विन / फिल्म के रखरखाय में कम से कम 6 वर्ष का अनुभव । समूह के टीम लीडर की हैसियत से तीन वर्ष का आवश्यक अनुभव , जिस के तहत रखरखाव / ध्विन और फिल्म उपकरणों का रखरखाव, सूची के अनुरूप सिस्टम चैक की योग्यता । अंग्रेजी भाषा में दक्षता ।	प्रतिनियुक्ति / अवशोषण द्वारा । प्रतिनियुक्ति – (क) केन्द्रीय / राज्य सरकार / विश्व. विधालय / स्वायत्त निकायें / पेशेवर और अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत अधिकारी ।	35 वर्ष । ( अभ्यार्थियों हेतु आयु सीमा आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार सुनिश्चित होगी )	
2	लाईट बॉय	1–पद (अनारक्षित)	स्तर — 2 ₹ 19,900-63,200/-	12वी कक्षा उत्तीर्ण, एवं स्टूडियो और आउटडोर प्रकाश व्यवस्था तथा उपकरणों की संमाल। लाईट/केबल/रिफलेक्टर को लाने-ले जाने की शारीरिक क्षमता सहित कम से कम दो वर्षों का अनुभव, या 10 वी कक्षा उत्तीर्ण एवं स्टूडियो और आउटडोर प्रकाश व्यवस्था तथा उपकरणों की संभाल। लाईट/केबल/रिफलेक्टर को लाने ले जाने की शारीरिक क्षमता सहित कम से कम 10 वर्ष का अनुभव।	100% सीधी भर्ती	30 वर्ष । (अभ्यार्थियों हेतु आयु सीमा आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार सुनिश्चित होगी)	
3	ड्राइयर	1–पद (अनारक्षित)	स्तर −2 ₹ 19,900-63,200/-	मैट्रिक या समकक्ष समान संगठनों में कम से कम 10 वर्षों के कार्यकाल के अनुभव बाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।	100% सीधी भर्ती	45 वर्ष। (अभ्यार्थीयों हेतु आयु सीमा आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार सुनिश्चित होगी)	

आवेदन, आवेदित पदनाम उल्लेखित करके, स्वप्रमाणित प्रमाणपत्रो के साथ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, शैक्षिक संचार संकाय, आई.यू.ए.सी. केंपस, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली – 110067 को **25 मार्च 2020** तक या उससे पहले भेजे । आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा मे फोटो सहित और सभी साक्ष्यों के साथ पूरा होना चाहिए। इसके लिए केवल शॉर्टलिस्ट किये गए उम्मीदवारों का स्किल टेस्ट / साक्षात्कार लिया जायेगा। सभी उदेश्य के लिए नियुक्ति अधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्य होगा। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की

पुछताछ व पत्राचार मान्य नहीं होगा।

1 आवेदन पत्र को सी.ई.सी. की वेबसाइट www.cec.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है । 2 आवेदन पत्र विधिवत स्वयं द्वारा सत्यापित सभी प्रसांगिक प्रमाण पत्रों / प्रशंसापत्र अर्थात, योग्यता / अनुभव / जन्म तिथि / निर्धारित प्रोफार्मा के साथ जमा किया जाना चाहिए।

3 आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2020 है। अंतिम तिथि को अवकाश होने की दशा में अगले कार्य दिवस को समापन की अंतिम तिथि माना जायेगा। 4 अंतिम तिथि के बाद प्राप्त या अधरे आवेदन पत्र को खारिज कर दिया जायेगा।

5 आवेदन "मुख्य प्रशासनिक अधिकारी", शैक्षिक संचार संकाय, आई.यु.ए.सी परिसर, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067 को बंद लिफाफे में पदनाम लिख कर भेजा जाना चाहिए। किसी भी तरह की डाक देरी के लिए सी.ई.सी. जिम्मेदार नहीं होगा। उम्मीदवार को पिन कोड संख्या, टेलीफोन नंबर, सेल-फोन नंबर और ई-मेल आईडी के साथ अपना पुरा पत्राचार और स्थायी पता लिखना आवश्यक होगा। 6 विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद निर्धारित अंतिम तिथि ही आयु के सम्बन्ध में सभी उम्मीदवारों की पात्रता सुनिश्चित करने की तिथि मानी जाएगी।

विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र प्रेषित करने का दायित्व होगा। यदि भविष्य में नियुक्त होने पर भी या किसी भी समय, यह पाया जाता है कि निर्धारित योग्यता, अनुभव आदि के कारण आवेदक पात्र नहीं है, किसी भी कारण से जिसका साक्षात्कार के समय पता नहीं चल सका, उसी समय उसके द्वारा सत्यापित धारा के अनुसार उसकी नियक्ति को निरस्त किया जायेगा। समान्यतः भर्ती नियमों से संबंधित और विशेषतया किसी भी पद की पात्रता के सम्बन्ध में अस्पष्टता होने पर सी.ई.सी. का निर्णय अंतिम होगा।

7 जम्मीदवारों का, विज्ञापन के अनुसार स्वयं अपनी पात्रता, योग्यता, अनुभव आदि का आकलन करने और वांछित जानकारी, दस्तावेजों और अन्य सहायक सामग्री के साथ

है, तो दस्तावेज को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और इस द्राचार के लिए उम्मीदवार के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा सकती है, जिसमे उसकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति भी शामिल है, नियुक्ति होने पर भी, उसकी नियुक्ति को रदद कर दिया जायेगा। 9 भर्ती की प्रक्रिया के दौरान या नियुक्ति होने पर भी किसी भी समय यह विदित होता है कि तथ्यात्मक सूचना को जानबूझ कर दबाया गया है या आवेदन या अन्य दस्तावेजों में भ्रामक बयान/सूचना या जाति, शिक्षा, योग्यता, अनुभव, जन्म तिथि या मूल निवास पत्र इत्यादि में निहित जानकारी से छंडछाड की गयी है तो उसकी उम्मीदवारी को

8 यदि किसी भी समय दस्तावेज / प्रमाण पत्र आदि को नियुक्ति के किसी भी स्तर पर या नियुक्ति के बाद झुठा / नकली / गलत या जानबूझ कर गलत किया गया पाया जाता

10. पहले से ही सेवारत जम्मीदवार को उचित प्रणाली के माध्यम से अपना आवेदन पत्र जमा करना होगा। यद्धपि आवेदन की अधिम प्रति पहले भेजनी होगी। उसे अपने कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तृत करना होगा अन्यथा, उसका साक्षात्कार नहीं होगा। ऐसे आवेदक को अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित / विचारधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र के साथ या साक्षत्कार के समय सतर्कता संबंधी रिपोर्ट प्रस्तृत करनी होगी ।

11 उपरोक्त क्रम संख्या 1 पद के लिए, नियमित/प्रतिनियुक्ति/ अवशोषण के आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की परिस्थिति में केंद्रीय/राज्य

सरकार स्वयात्त निकाय/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय के सेवानिवृत अधिकारी की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में उम्मीदवार को न्युनतम अवर सचिव या समकक्ष पद के स्तर पर सेवनिवृत होना चाहिए। पारिश्रमिक का निर्धारण मानदंडों के अनुसार होगा। 12 आवेदन संख्या अधिक प्राप्त होने की स्थिति में सी.ई.सी. को साक्षात्कार हेत् उच्च अंकों के आधार पर अपेक्षित योग्यता वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने का अधिकार होगा। केवल अपेक्षित अनुभव होने पर आवेदक की साक्षात्कार हेतु दावेदारी मान्य नहीं होगी।

13 किसी भी कारण से विज्ञापित पद को भरने या न भरने का अधिकार सी.ई.सी. के पास है। 14 सी.ई.सी. बिना कारण बताए किसी भी समय आंशिक या पूर्ण रूप से विज्ञापन को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

उसी समय से निरस्त किया जाएगा तथा सभी सेवाओं को समाप्त किया जाएगा।

15 सी.ई.सी. बिना कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

16 **स्थानांतरण देयता** –सामान्य नीति के अनुरूप चयनित अधिकारी को सी.ई.सी. दिल्ली या ई.एम.आर.सी. केंद्र रुड़की में स्थानांतरित / पोस्टिंग किया जा सकता है।

17 किसी भी प्रकार की छूट भारत सरकार के नियमों के अंतर्गत देय होगी। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सीईसी

www.readwhere.com

કિલોદીઠ ૭૦ પૈસા વધીને પ્રથમ

પૈસા વધીને રૂ.૧૬૯.૩૫ તથા રહ્યા હતા.

કરજદાર / જામીનદારનું

નામ અને સરનામું

સેજપુર – બોધા, અમદાવાદ

incorporated/registered

debtor date of the

resolution applicants

resolution applicants

Resolution Professional

Professional

Place : Kolkata

Date : 28.02.2020

provisional list

ই্ডিয়েন বঁক পর থাডা। - শিথল হাড, গুহালীখল ঔচহীলী মাম, পর, সমহাবাহ-320001. থাল : ০৩৫-২૫૫০৩৫৭২, মা : ০৫४২৩৪ ৭૬३০৫ গুমগুর : maskatimarket@indianbank.co.in

"APPENDIX- IV-A" [See proviso to rule 8 (6)]

અચલિત મિલકતોના વેચાણ માટે વેચાણ નોટિસ

દા સિક્ચોરિટાઇગ્રેશન એન્ડ રિકન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ફાયનાન્શિયલ એસેટ્સ એન્ડ એન્ફોર્સમેન્ટ ઓફ સિક્ચોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ એક્ટ, ૨૦૦૨, સિક્ચોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ (એન્ફોસમેન્ટ) એક્ટ ૨૦૦૨ ના વંચાતા જોગવાઇ નિયમ ૮(૬) હેઠળ સ્થાવરા વંગમ અસ્ક્યામતોનું વેચાશ આથી જાહેર જુનતાને સામાન્ય રીતે અને દેણદાર(રો) તેમુજ જામીનદાર(રો)ને ખાસ નોટિસ આપવામાં આવે

છે કે નીચે વર્ણવેલ સ્થાવર મિલકત સિક્યોર્ડ લેણદોર, ઈન્ડિયન બેંક પાસે ગિરવે છે, જેનો સાકેતિક કબ્જો બેંકના અધિકૃત અધિકારી દ્વારા લેવાયો છે, નીચે જણાવેલ મિલકત 'જેમ છે જ્યાં છે', 'જે છે તે છે' અને 'જે કાઈ છે તે છે'ના આધારે તા.૩૧.૦૩.૨૦૨૦ ના રોજ ઈન્ડિયન બેંકની બાકી રકમ રૂ. ૧૩,૧૧,૦૮૩/-

. (રૂપિચા તેર લાખ અગ્ચાર **૯૧૧૨ ત્યાંસી માત્ર) તા. ૨**૪. ૦૧. ૨૦૨૦ સુધીના ત્યારબાદ ચંડત વ્યાજ, કોસ્ટ્સ અન્ય ચાર્જીસ અને ખર્ચ ની વસૂલાત માટે ઈ-હરાજીથી વેચાણ કરવામાં આવશે.

. શ્રી જીઓશભાઈ સોલંકી ફલેટ નં. ૩૦૨, બ્લોક નં. ૪૯, સેક્ટર-સી, રૂ. ૧૭.૦૦

(severe), કલેટ નં. 30ર, સેત્રફળ ૧૧૦ સ્કે. ચાર્ડ એટલે કે ૯૧-૯૫ સ્કે. બલોક નં. ૪૯, સ્વામિનારાચણ મીટર્સ સુપર બિલ્ટ અપ એરિયા ત્રીજો માળ,

હલાક ને. ૪૯, સ્વામિનારાથણ માર્ગર સુપર બિલ્ટ અપ એરિયા ત્રીજો માળ, પાર્ક, સરદાર પરેલ દીંગ રોક, 'સ્વામિનારાયણ પાર્ક (નરોકા)' નામે જાણીતી ત્રાં કર્યાં કર્યા કર્યાં કર્યા કર

ગણપતભાઈ એમ સોલંકી (જામીનદાર), ૧૭, ઘનલક્ષ્મી

સોસાચટી, ટુ બજરંગ શરમ સામે, હોલી ચાઈલ્ડ સ્કૂલ પાસે, લેત્તરઃ બ્લોક સી/૪૫, દક્ષિણઃ બ્લોક નં. ૪૯

.Website : https://www.bankeauctions.com પર સંપર્ક કરી શકે છે.

સિક્યોરેડ ક્રેડીટર્સની વેબસાઈટ્સ એટલે કે www. Indianbnak.co.in

તારીખ ૨૮.૦૨.૨૦૨૦, સ્થળઃ અમદાવાદ

identification number of corporate debtor

Date of invitation of expression of interest

Last date for submission of objections to

evaluation matrix and request for resolution

plans (RFRP) to prospective resolutio

memorandum and further information

Last date for receipt of expression of interest 04.03.2020
Date of issue of provisional list of prospective 14.03.2020

13. Date of issue of final list of prospective 29.03.2020

14. Date of issue of information memorandum, 19.03.2020

16. Last date for submission of resolution plans 18.04.2020

18. Estimated date for submission of resolution 17 05 2020

correspondence with the Resolutio

22. Further Details are available at or with

23. Date of publication of Form G

ી સેક્ટર સી નો કલેટ નં. ૩૦૧.

વેચાણના નિયમો અને શરતોની માહિતી માટે, અમારા ઈ-હરાજી સર્વિસ પ્રોવાઈકર મેસર્સ સી૧

ઈન્ડિયા પ્રા. લી. ની આપેલ વેબસાઈટ લિંક (www.bankeauctions.com) પર સંપર્ક કરવો

(સંપર્ક નંબર: ૦૧૨૪ - ૪૩૦૨૦૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, શ્રી ભાવિક પંડ્યા, મોબાઈલ

८८९९९८२€३७, ย์भิย์ด : gujarat@c1india.com & support@bankeauctions.com

Form G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Under Regulation 36A(1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

RELEVANT PARTICULARS

Name of the corporate debtor

Date of incorporation of corporate debtor

Authority under which corporate debtor

Corporate identity number / limited liability U27109WB2005PTC101723

principal office (ifany) of corporate debtor Road, Kolkata, WB-700071 IN Insolvency commencement corporate 20.11.2019

Authority under which corporate debtor is Registrar of Companies (Kolkata, West Bengal

Address of the registered office and 16A, Everest House 46C, Jawaharlal Nehr

| Country | Coun

Norms of ineligibility applicable under These norms are available in Section 29A of the section 29A are available at: Insolvency & Bankruptcy Code.

15. Manner of obtaining request for resolution As per the provisions of Regulation 36B(1) of plan, evaluation matrix, information the Insolvency & Bankruptcy Board of Indi

Manner of submitting resolution plans to a) In electronic mode at the mail id mentioned

Professional, as registered with the Board 18, Rabindra Sarani, Poddar Court, 5th Floor

21. Address and email to be used for 18, Rabindra Sarani, Poddar Court, 5th Floo

nese timelines may undergo change due to various reasons and the same shall be duly intimated

plan to the Adjudicating Authority for approval

19. Name and registration number of the Name: Mr. Ashok Kumar Sarawagi

Name, Address and email of the Resolution Name: Ashok Kumar Sarawa

serial no. 21 AND

19.03.2020

(Insolvency Resolution Process for Corporat

Persons) Regulations, 2016 and further

information can be obtained by sending

quest email at: ksteel.cirp@gmail.com

b) By Hand delivery at the address mentioned

Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P00171/2017-18/10340

Room no. 4. Gate No. 3. Kolkata-700001. Wes Bengal, Email id: sarawagiashok@gmail.con

Room no. 4, Gate No. 3, Kolkata-700001, We

Bengal, Email id: ksteel.cirp@gmail.com

at: ksteel.cirp@gmail.com 01.02.2020 Extension of EOI- 29.02.2020

Contact number: 033 4007 6964 / 91 98301 5495-Address: 18 Rabindra Sarani, Kolkata-70000-Email: sarawagiashok@mail.con IBBI Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P00171/2017-18/10340

Resolution Professiona KOHINOOR STEEL PRIVATE LIMITE

મિલકતની વિગતો

સત્રનાં

- શ્રીરામ સિટી યુનિયન ફાયનાન્સ લી. 🗕 **હેડ ઓફીસ** : લેવલ ૩, ઇસ્ટવિંગ, વૉકહાર્ટ ટાવર, બાંદ્રા ફર્લા કોમ્પલેસ,બાંદ્રા (પૂર્વ) મુંબઇ–૪૦૦૦ ยาโยต : vishal.mehta@shriramcity.com

**રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ** : ૧૨૩, અંગપ્પા નાઇકન સ્ટ્રીટ, ત્રેજ્ઞાઇ–૬૦૦૦૦ ાખા ઓફીસ : ક્રિશ કોર્નર બીજો માળ, મુથુટ ફાયનાન્સ આગળ, રંગ રેશમ સારીઝ સામે, અમિન માર્ગ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫ કબજા નોટીસ [નિચમ ૮(૧)] (સ્થાવર મિલકત માટે) CIN No.: L65191TN1986PLC012840

આથી નીચે સહી કરનાર શ્રીરામ સીટી યુનિયન ફાયનાન્સ લીમીટેડના અધિકૃત અધિકારીએ સિક્યોરીટાઇઝેશન અને રીકન્સ્ટ્રક્શઃ ઓફ ફાયનાન્સિયલ એસેટ્સ અને એન ફોર્સમેન્ટ ઓફ સિક્યોરીટી ઇન્ટરેસ્ટ એક્ટ, ૨૦૦૨ (૨૦૦૨ નો નં.૭) હેઠળ અને સિક્યોરીટી ડન્ટરેસ્ટ (એનફોર્સમેન્ટ) નિયમો, ૨૦૦૨ના નિયમ ૩ સાથે વંચાતી કલમ ૧૩(૧૨) હેઠળ મળતી સત્તાનો ઉપયોગ કરીને તારી ૧૪.૧૨.૨૦૧૯ ના રોજ માંગણા નોટીસ જારી કરી દેવાદાર બાબુભાઇ નારણભાઇ સખિયા, સહ-દેવાદાર/જામીનદારો -જે લેન્ડમાર્ક (પ્રોપ. કિશોરભાઇ બી. સખિયા), શ્રી કિશોરભાઇ બી સખિયા, શ્રીમતી મનિષાબેન કે સખિયાને નોટીસમાં જણાવેલ ૨ક રૂા.૧,૩૩,૩૫,૨૦૯/- (રૂપિયા એક કરોડ તેત્રીસ લાખ પાત્રીસ હજાર બસો નવ પુરા) ૧૩.૧૨.૨૦૧૯ મુજબ અને નોટીસי જણાવ્યા મુજબ તેના પરના ચડત વ્યાજ સહીત જણાવેલ નોટીસ મળ્યાની તારીખથી ૬૦ દિવસની અંદર ચુકવવા જણાવ્યું હતું દેવાદાર આ રકમ પરત ચુકવવામાં નિષ્ફળ ગયા હોવાથી દેવાદાર અને જાહેર જનતાને અહીં જાણ કરવામાં આવે છે કે નીચે સહી કરનારે જણાવેલ નિયમોના નિયમ ૮ સાથે વંચાતી જણાવેલ એક્ટન કલમ ૧૩(૪)હે*ઠ*ળ નીચે જણાવેલી મિલકતનો ભૌતિક કબ<sup>.</sup> ૨૭મી કેબ્રઆરી ૨૦૨૦ ના રોજ મેળવેલ છે.

ખાસ કરીને દેવાદાર/સિક્યો ર્ડ ડેબ્ટર અને જાહેર જનતાને ચેતવણી આપવામાં આવે છે કે સદરહું મિલકત સાથે કોઇ સોદો કરવો નહી અને આ મિલકત સાથે કરેલ કોઇપણ સોદા શ્રીરામ સીટી યુનિયન ફાયનાન્સ લી.ની રકમ રૂા.૧,૩૩,૩૫,૨૦૯/- (રૂપિયા એ કરોડ તેત્રીસ લાખ પાત્રીસ હજાર બસો નવ પુરા) ૧૩.૧૨.૨૦૧૯ મુજબ અને તેના પરના ચડત વ્યાજને આધિન રહેર્શ સેક્યોર્ડ મિલકતને પરત મેળવવા માટે ઉપલબ્ધ સમય અંગે એક્ટની કલમ ૧૩ની પેટાકલમ (૮) ની જોગવાઇઓ પ્રત્યે દેવાદારો

#### મિલકતની વિગત

ગુજરાત રાજ્યમાં પેટા જિક્ષો પડઘરી રજી. જિક્ષો રાજકોટમાં નાનાવાડે રેવેન્યુ સર્વે નં. ૧૫/પૈકી ૩ પૈકી ૧/પૈકી ૧ ખાતે આવેલ પ્લો નં. ૧ થી ૬૬ની એનએ જમીનના તમામ પીસ અને પાર્સલ. ક્ષેત્રફળ ૧૩૯૭૩.૦૮ ચો.મી. એટલે કે ૧૬૭૧૧.૮૦ ચો.યાર્ડ યતુઃસીમાઃ

પર્વઃ પાસેના સર્વે નં.૧૭ની અન્ય મિલકત. પશ્ચિમઃ પાસેની પડતર

સ્થળ : રાજકોટ તારીખ : ૨૭.૦૨.૨૦૨૦

/ ઈએમડી

3I. 9.00

સહી/- અધિકૃત અધિકારી, ઈન્ડિયન બેંક

યાન દોરવામાં આવે છે.

સહી/– અદ્યિકૃત અદ્યિકારી શ્રીરામ સિટી યુનિયન ફાયનાન્સ લીમીટેડ

તી.આઈ.એન. નં. L74110GJ2000PLC037472 રજીસ્ટર્ડ. ઓફીસઃ પ્લોટ નં. ૪૩, નવનીત પ્રકાશનની પાછળ, સુખરામનગર, ગોમતીપુર, અમદાવાદ, ગુજરાત-૩૮૦૦૨૩, ફોનઃ ૦૭૯-૨૨૭૭૨૯૯૧ ઈ-મેલઃ cs@kushallimited.com, વેબસાઈટઃ www.kushallimited.com

#### પોસ્ટલ બેલોટ નોટીસ

આથી કંપનીના સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ-૧૧૦ ની જોગવાઇ સાથે કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૨ની જોગવાઇઓ (સમયાંતરે, સુધારા કરેલ જોગવાઇઓ સહીત) તથા અન્ય લાગ પડતી જોગવાઈઓ જો કોઈ હોય, કુશલ લિમિટેડ ('દ કંપની' તરીકે ઓળખાસે) બુધવાર, તા. ૧૯મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦ ની બેલેટ નોટીસમાં ઉલ્લેખ કર્યા મુજબનો ખાસ ઠરાવ દ્વારા પોસ્ટલ બેલોટ (જેમાં ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મતદાનનો સમાવેશ થાય છે) કંપનીના સભાસદો પાસે થી

પોસ્ટલ બેલોટ નોટીસ તથા પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મ એવા તમામ સભ્યોને મોકલવામાં આવ્યા છે જેમના નામ શુક્રવાર, તા.૨૧મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦ ના રોજ સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીઝ (ઇન્ડીયા) લિમિટેડ ('સી.ડી.એસ.એલ.' તરીકે ઓળખાસે) એને નેશનલ સિક્યુરીટી ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (એન.એસ.ડી.એલ.) દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા લીસ્ટ ઓફ બેનીફિશ્યલ ઓનર્સ/રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં સભાસદ તરીકે સામેલ છે.

આ સાથે વધુમાં એવી પોસ્ટલ બેલોટ નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ-૧૦૮ તથા કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન), નિયમો-૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ સાથે, કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) એમેન્ડમેન્ટ નિયમો, ૨૦૧૫ તેમજ સીક્યુરીટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાના (લિસ્ટીંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ) નિયમો, ૨૦૧૫ તેમજ સીક્યુરીટીઝ) નિયમો ૨૦૧૫ ના નિયમન ૪૪ મુજબ કંપની પોતાના સભ્યોને પોસ્ટલ બેલોટ નોટીસમાં દર્શાવેલ તમામ ઠરાવોને ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મતદાન કરવા માટે સુવિધા પૂરી પાડી રહેલ છે. ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મતદાનની પ્રક્રિયા પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મમાં દર્શાવેલ છે.

કંપનીએ ઈ-વોટીંગની સુવિધા આપવા માટે સી.ડી.એસ.એલની સેવાઓ લીધી છે ને મેસર્સ યશ મહેતા એન્ડ એસોસિએટસ, પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેક્રેટરીઝ, અમદાવાદ (સી.ઓ.પી.: ૧૬૫૩૫)ની નીમણુંક નિરક્ષક તરીકે કરી છે જેથી પોસ્ટલ બેલોટ (ઈ-વોટીંગ સાથે) પ્રમાણિક અને પારદર્શી રીતે થાય.

કંપનીએ જેના ઈ-મેઈલ આઈ.ડી ડીપોઝીટરી પાસે નોંધાવેલ ન હોય તેવા તમામ સભ્યોને બુધવાર, તા. ૧૯મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦ ના રોજ ફીઝીકલ પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મ નોટીસ સાથે પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મ અને કંપનીના સરનામાવાળા પ્રીપેઇડ બિઝનેસ રીપ્લાય પરબીડિયા સાથે રવાનગી કરવાનું કામ ગુરૂવાર તા. ૨૭મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦ ના રોજ પુરૂં કરેલ છે. અને જે સભ્યોના ઈ-મેઈલ આઈ.ડી નોંધાયેલ હોય તેવા તમામને નોટીસની સોફ્ટ કોપી તેમના ઈ મેઈલ આઈ.ડી ઉપર મોકલવાનું કામ ગુરૂવાર તા.૨૭.૦૨.૨૦૨૦ના રોજ પુરૂ કરવામાં આવેલ છે.

ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મતદાનનો પ્રારંભ શનિવાર તા.૨૯મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦ના રોજ સવારે ૦૯:૦૦ કલાકે (ભારતીય સમયાનુસાર) શરૂ થશે અને તેની સમાપ્તી રવિવાર તા ૨૯મી માર્ચ, ૨૦૨૦ના રોજ સાંજના ૫:૦૦ કલાકે (ભારતીય સમયાનુસાર) થશે. સભ્યોએ સંપૂર્ણ અને યોગ્ય રીતે ભરેલ અને સહી કરેલા પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મ રવિવાર, તા. ૨૯મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦ ના રોજ સાંજના પઃ૦૦ કલાક મેસર્સ યશ મેહતા એન્ડ એસોસિએટ્સ, સ્ક્રુટીનાઇઝર, ૬૭, ચીનુભાઇ ટાવર, હેન્ડલુમ હાઉસની સામે, એચ.કે. કોલેજની બાજુમાં, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત ખાતે મળી રહે તે રીતે મોકલવાના રહેશે. સભ્યોએ ખાસ નોંધ લેવી કે ઉપરોક્ત જણાવેલ તારીખ પછી મળેલા પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મ મળેલ નથી એવુ માની લેવામાં આવશે અને જણાંવેલ તારીખ અને સમય પછી પોસ્ટ અથવા ઇલેક્ટ્રોનિંક માધ્યમ દ્વારા મતદાન કરવા દેવામાં આવશે નહીં.

સભ્યો મતદાનના બે પ્રકારો એટલે કે પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મ અથવા ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ પૈકી કોઇ એકની પસંદગી કરી શકશે. જો સભ્યો ઈ-વોર્ટીંગ પસંદ કરશે તો પોસ્ટલ બેલોટ દ્વારા અને પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મ પસંદ કરશે તો ઈ-વોટીંગ દ્વારા મતદાન કરી શકશે નહીં.જો સભ્યે બન્ને પ્રકારે મતદાન કર્યું હશે તો, તેવા કિસ્સાઓમાં ઇ-વોટિંગથી કરવામાં આવેલ મતદાનને માન્ય રાખવામાં આવશે અને પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મથી કરવામાં આવેલું મતદાન અમાન્ય ગણવામાં

પોસ્ટલ બેલોટ નોટીસ, પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મ અને તે બાબતની સૂચનાઓ કંપનીની વેબસાઇટ : www.kushallimited.com અને સી.ડી.એસ.એલની વેબસાઇટ : www.evotingindia.com

જે સભ્યોને પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મ પ્રાપ્ત નથી થયા તે સભ્યો ડુપ્લીકેટ ટપાલ મતપત્ર ફોર્મ માટે

કંપનીને અરજી કરી શકશે. પોસ્ટલ બેલોટનું પરિણામ સાથે સ્ક્રુટીનાઇઝ રીપોર્ટ શનિવાર ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૦ના રોજ

ખથવા તે પહેલાં જાહેર કરવામાં આવશે અને તેની જાણ બી.એસ.ઈ.લિમિટેડને કરવામ આવશે તથા કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે જાહેરમાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે તથા કંપનીની વેબસાઇટઃ www.kushallimited.com અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીઝ (ઇન્ડીયા) લિમિટેડની વેબસાઇટ : www.cdslindia.com ઉપર દર્શાવવામાં આવશે. કોઇ પણ પ્રશ્ન કરિયાદના કિસ્સામાં સભ્યો કંપનીની રજીસ્ટર્ટ ઓફિસે શ્રીમતિ શિવાંગી શાહ

કંપની સેક્રેટરી નો ફોનઃ ૦૭૯-૨૨૭૭૨૯૯૧ અથવા ઇ-મેઇલઃ cs@kushallimited .com ઉપર સંપર્ક કરી શકો છો અથવા કંપનીના આર.ટી.એ.નો investor.ahm @bigshareonline.com ઉપર સંપર્ક કરી શકો છો. ઇ-વોટીંગને લગતી કોઇ પણ સમસ્યા કે પ્રશ્નો માટે સભ્યો માટે સતત પ્રશ્નો પૂછો (એફ.એ.કયુ.એસ.) અને સભ્યો માટે ઈ-વોટીગ માર્ગદર્શિકા www.evotingindia.com પર ઉપબ્ધ છે અથવા ઇ-મેઇલ helpdesk.evoting @cdslindia.com ઉપર લખીને મોકલી શકો છો. બોર્ડ ઓક ડાયરેક્ટરના આદેશથી કુશલ લિમિટેડ વતી.

સ્થળ : અમદાવાદ

તારીખ: ૧૯.૦૨.૨૦૨૦

સહી/-સંદિપ અંગ્રવાલ

ચેરમેન અને મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર (DIN : 00239648)

અધિકૃત અધિકારી

એલ&ટી હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ વતી

### જાહેર સૂચના– મિલકતોનું લિલામ ક્રમ વેચાણ

એલ&ટી ફાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડના અધિકૃત અધિકારી સિક્યુરિટાઇઝેશન એન્ડ રિકન્સ્ટક્શન એક ફાઇનાન્શિયલ એસેટસ એન્ડ એન્ફોર્સમેન્ટ ઓફ સિક્યુરિટી ઇન્ટરેસ્ટ એક્ટ 2002 (54/ 2002) અને કથિત ધારા हે6ળ આપવામાં આવેલી સત્તાની અજમાયશ કરતાં નિમ્નલિખિત મિલકતો તેનાં લેણાં અને તેની પરનું ધ્યાજ, શુલ્ક અને ખર્ચ વગેરે વસૂલ કરવા માટે **''જાદેર– લિલામી''** થકી **''જેમ છે જ્યાં છે ધોરણે'' અને 'જેમ છે જે સ્થિતિમાં છે''**ધોરણે લિલામ કરવા માગે છે.

ઋણદારનું નામ	મેસર્સ ગીતા ખમણ હાઉસ
સહ- ઋહાદારનું નામ	િજગરકુમાર કનુભાઈ ઠક્કર જુગલ વિપુલભાઈ ઠક્કર બ્રિજેશ કનુભાઈ ઠક્કર કનુભાઈ કેશુલાલ ઠક્કર
લોન અકાઉન્ટ નંબરો	BRDHL17000109
28.02.2020ના રોજ બાકી રકમ	3.91,29,019.16/-
સરફેસી એક્ટ 2002 हેઠળ પ્રત્ય કબજો લેવાયો	03.02.2020
જાહેર લિલામી માટે સંરક્ષિત અસ્કચામતોનું વિવરણ	બ્લોક / પ્લોટ નં. કી / 33, અત્રપૂર્ણો સોસાયટી, સર્વે નં. 376/1, 376/2, 379 એફ. પી. નં. 338, જેનો ટી.પી. સ્કીમ નં. છે 18, ભવન્સ સ્કૂલની સામે, માંજલપુર, વડોદરા, ગુજરાત.
નિરીક્ષણની તારીખ અને સમય	10.03.2020
બાનાની રકમ (ઈએમડી)	3.651397.5/-
બાનાની રકમ સુપરત કરવાની છેલી તારીખ	30.03.2020
અધિકૃત અધિકારી દ્વારા પ્રસ્તાવિત મુજબ અનામત કિંમત	3.6513975/-
બિકવૃદ્ધિ	3.2,00,000/-
જાહેર લિલામીની તારીખ અને સમય	31.03.2020

#### જાહેર લિલામીની નિચમો અને શરતો

- 1. લિલામી વેચાણ જાહેર લિલામીની સહાયથી અને માધ્યમથી એસએઆરએફએઈએસઆઈ ધારાની જોગવાઈઓ હેઠળ અધિકૃત અધિકારી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. 2. જાહેર લિલામી ઉકત ઉદ્ઘેખિત તારીખ અને સમયે હાથ ધરાશે, જ્યારે ઉકત ઉદ્ઘેખિત સંરક્ષિત અસ્કયામત "જેમ છે જ્યાં છે ધોરણે" અને "જેમ છે જે સ્થિતિમાં છે" ધોરણે વેચવામાં આવશે.
- 3. જાહેર લિલામીમાં ભાગ લેવા માટે ઈચ્છુક ખરીદદાર/ બિકરોએ 31.03.2020ના રોજ અથવા પૂર્વે પેન કાર્ડ, કંપનીના કિસ્સામાં બોર્ડનો ઠરાવ અને સરનામાના પુરાવાની નકલો સાથે સંરક્ષિત અસ્કયામતોની અનામત કિંમતના 10%ની રિફંડેબલ બાનાની રકમની ચુકવણીની વિગતો સુપરંત કરવાની રહેશે.
- 4. જાહેર લિલામીમાં સફળ નહીં થનારા બધા અન્ય બિકરોની બાનાની રકમ એલટીએચએફએલ દ્વારા જાહેર લિલામી બંધ થયાના 7 દિવસમાં રિફંડ કરાશે. બાનાની રકમ પર કોઈ વ્યાજ નહીં અપાશે. 5. સફળ ખરીદદાર/ બિડર તેની/ તેણીની ઓફરના 25% (બાનાની રકમ સમાવિષ્ટ) ડીડી/ પી.ઓ. દ્વારા વડોદરા ખાતે ચૂકવવાપાત્ર ''એલ&ટી હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ''ની તરફેણમાં 31.03.2020ના રોજ 18.00 કલાકે અથવા તે પૂર્વે, એટલે કે લિલામીના દિવસે અથવા 01.04.2020ના રોજ અથવા આગામી કામકાજના દિવસે જમા કરાવવાના રહેશે, જે ડિપોઝિટને એલ&ટી હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ દ્વારા સમર્થન મળવું જોઈએ, જેમાં નિષ્ફળ જવા પર વેચાણ નિષ્ફળ ગયું છે એમ માનવામાં આવશે અને કથિત સફળ બિડરની બાનાની રકમ જસ કરાશે.બાકી રકમ
- એટલે કે, ચૂકવવાપાત્ર ખરીટી કિંમતના 75% એલ&ટી હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ લિમિટેડને ખરીદદાર દ્વારા સ્થાવક મિલકતના વેચાણના સમર્થનના પદરમા દિવસે અથવા પૂર્વે અથવા કાયદાની જોગવાઈ અનુસાર આવા વિસ્તારિત સમયગાળામાં ચૂકવવાની રહેશે 6. મિલકતના નિરીક્ષણ અથવા વધુ માહિતી માટે સંભાવ્ય બિકરોએ અધિકૃત અધિકારી, એટલે કે, શ્રી ભરત પ્રજાપતિ નો મોબાઈલ નં. 98790 02844 ઉપર અથવા શ્રી પ્રકાશ સિંહનો મોબાઈલ નં.
- 90990 17130 ઉપર અથવા સરનામે, એટલે કે, એલ&ટી ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીસ, 202– 203, સહયોગ એટ્રિયમ, 2જો માળ, ઓ પી રોડ, જગદીશ ફરસાણની પાછળ, મલ્હાર પોઈન્ટ નજાક, ઓ પી રોડ, વડોદરા – 390 012 ખાતે સંપર્ક કરી શકે છે.
- 7. લિલામીના કોઈ પણ તબક્કે અધિકૃત અધિકારી કોઈ પણ કારણ આપ્યા વિના અને કોઈ પણ પૂર્વસૂચના વિના બિડ / ઓફર સ્વીકારી / નકારી / સુધારણા/ રદ કરી શકે છે અથવા લિલામી
- 8. સફળ ખરીદદાર/ બિડરે લાગુ કાયદા અનુસાર મિલકત કન્વેયન્સ કરવું/ તેના/ તેણી/ તેમની તરફેણમાં કરાવી લેવા માટે ચૂકવવાનું આવશ્યક કોઈ પણ કાનૂની લેણાં, કર, ચૂકવવાપાત્ર ફી,

સ્ટેમ્પ ક્યુટી, નોંધાગી કી વગેર ભોગવવાનું રહેશે. 9. ઋણદાર / ગેરન્ટરો, જેઓ કથિત બાકી લેણાં માટે ઉત્તરદાયી હોય, તેમણે આ વેચાણની સૂચનાને ઉક્ત ઉદ્ઘેખિત જાહેર લિલામી વેચાણના હોલ્કિંગ વિશે સિક્યુરિટી ઈન્ટરેસ્ટ (એન્ફોર્સમેન્ટ) નિયમોના નિયમ 8(6) દેઠળ સૂચના તરીકે આ વેચાણ સૂચના ગણવામાં આવશે.

સોના-ચાંદીમાં સામસામા રાહ, કોટનમાં સેંકડા વધ્યા

## કોમોડિટી બ્યરો

મુંબઇ, તા. ૨૮ ३.२४२७६.८६ ઓપ્શન્સનો કીમતી ધાતુઓમાં સોના- તેલમાં વૃદ્ધિ રહી હતી.

કિલોદીઠ રૂ.૧૨૩ વધ્યો હતો. કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. રૂ.૩૦૭૫૫ ના ભાવ રહ્યા એલ્યુમિનિયમ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ નિકલ જૂન રૂ.૧૩.૯ ઘટીને બિનલોહ ધાતુઓમાં મિશ્ર સોનાના સોદામાં કોમોડિટીઝમાં

ચાંદીના વાયદાના ભાવમાં કોમોડિટી વાયદાઓમાં કીમતી રૂ.૧૨ ઘટીને ૧ ગ્રામદીઠ બિનલોહ વાયદો ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ.૧૮૫ વાયદાઓમાં કુલ ૬૫૩૦૭ સોનું-મિની જુલાઈ વાયદો ૧૦ રૂ.૧૦૨૧૦.૧૩ ઘટ્યો હતો, જ્યારે ચાંદીનો સોદાઓમાં રૂં.૪૪૧૮.૪૫ ગ્રામદીઠરૂ.૧૭૧ઘટીને બંધમાં વેપાર

વાયદાઓમાં હતા. જૂન કોન્ટ્રેક્ટ પ્રથમ સત્રનાં અંતે બંધ રહ્યા હતા.

વિવિધકોમોડિટી વાયદા વલણ હતું. એનર્જીમાં ક્રૂડ એમસીએક્સ સોનું ઓગસ્ટ ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી રૂ.૧૫૭.૩ અને તાંબુ જૂન રૂ.૧૦૪૩.૪ બંધ રહ્યા હતા. અને ઓપ્શન્સમાં મળીને પ્રથમ તેલમાં સાર્વત્રિક ઘટાડો વાયદો ૧૦ ગ્રામદીઠ જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ.૬.૪૫ વધીને રૂ.૪૮૧.૨૫ જસત જૂન રૂ.૧.૬ ઘટીને સત્રમાં એમસીએક્સ પર વાયદાના ભાવમાં હતો. કૃષિ રૂ.૩૦૯૮૧ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૩૯૭૩૦ ખૂલી, ઊપરમાં થયાહતા,જ્યારેસીસુંજૂન૮૫ બંધમાં રૂ.૨૧૪ ના ભાવ કોટનમાં રૂ.૩૧૦૨૪ અને નીચામાં રૂ.૪૦૧૩૫ અને નીચામાં કરોડનું ૮૭,૩૨૫ ગાંસડીના વોલ્યુમ રૂ.૩૦૮૪૦ ના મથાળે રૂ.૩૯૭૩૦ ના સ્તરને સ્પર્શી ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં સાથે ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ અથડાઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૧૨૩ કોમોડિટી વાયદાઓનો હિસ્સો ૩,૧૩,૦૫૦ ગાંસડીના સ્તરે રૂ.૧૮૫ ઘટીને રૂ.૩૦૮૬૧ વધીને રૂ.૩૯૯૨૭ બંધ રહ્યો રૂ.૨૨૮૭૫.૫૨ કરોડનો અને રહ્યો હતો. કોટનના વાયદાના બંધ રહ્યો હતો. ગોલ્ડ-ગિની હતો. ચાંદી-મિની જૂન હિસ્સો ભાવમાં સેંકડા વધી આવ્યા જૂન કોન્ટ્રેક્ટપ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૧૨૫ વધીને રૂ.૩૯૯૫૦ રૂ.૧૪૦૧.૩૪ કરોડનો રહ્યો હતા. એલચી અને સીપીઓના રૂ.૯૬ ઘટીને ૮ ગ્રામદીઠ અને ચાંદી-માઈક્રો જૂન હતો. કોમોડિટી વાયદાઓમાં વાયદાનરમહતા,જ્યારેમેન્થા રૂ.૨૪૮૮૮ અને ગોલ્ડ-પેટલ રૂ.૧૩૭ વધીને રૂ.૩૯૯૫૯

સામસામા રાહ હતા. સોનાનો ધાતુઓમાં સોના-ચાંદીના રૂ.૩૦૭૭ થયા હતા, જ્યારે ૨૧૨૮૧૮ સોદાઓમાં કુલ કરોડના

GHCL LIMITED

Registered Office: GHCL House, Opp Punjabi Hall, Near Navrangpura Bus Stand, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat - 380 009
Corporate Office: GHCL House, B-38 Institutional Area, Sector 1, Noida - 201301
Compliance Officer: Mr. Bhuwneshwar Mishra
Tel.: 0120 3358143; Fax: 0120 2535209; CIN: L24100GJ1983PLC006513;
Website: www.ghcl.co.in; E-mail: secretarial@ghcl.co.in

#### PUBLIC ANNOUNCEMENT

POST BUY BACK PUBLIC ADVERTISMENT FOR THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF GHCL LIMITED

This post Buy Back public advertisement ("Post Buy Back Public Announcement") is being made in accordance with the Regulation 24 (vi) and other applicable provisions of the Securities Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 2018 as amended (including any statutory modification(s), or re-enactment for the time being in force) ("Buy Back Regulations") regarding completion of Buy Back (defined hereinafter) by GHCL Limited ("Company").

This Post Buy Back Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated January 24, 2020 ("Public Announcement"), issued in connection with the Buy Back. Unless specifically defined herein, capitalized terms and abbreviations used herein have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement.

#### 1. THE BUY BACK

- 1.1. The Board of Directors of the Company ("Board") at their meeting held on January 23, 2020, in accordance with Article 26 of the Articles of Association of the Company and pursuant to the provisions of Sections 68, 69, 70 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and in compliance with the Buy Back Regulations, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("SEBI LODR Regulations"), Reserve Bank of India ("RBI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), Registrar of Companies, Ahmedabad (the "ROC"), Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed etc. as may be required and further subject to such conditions as may be prescribed while granting such Board approval which may be agreed by the Board of Directors of the Company, approved the Buy Back of Company fully paid-up Equity Shares for an aggregate amount not exceeding ₹ 60,00,00,000/- (Rupees Sixty Crores only), excluding transaction costs ("Transaction Costs") viz. brokerage, cost, fees, turnover charges and other applicable taxes such as securities transaction tax goods and service tax (if any) and income tax, stamp duty, advisors fees, filing fees and other incidental and related expenses etc. ("Maximum Buy Back Offer Size"), for a price not exceeding ₹ 250/- (Rupees Two Hundred and Fifty only) per Equity Share ("Maximum Buy Back Offer Price"), subject to Buy Back not exceeding 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares of the Company (hereinafter referred to as the "Maximum Buy Back Shares") from all shareholders of the Company excluding promoters ("Promoters"), promote group and persons who are in control of the Company in accordance with the Buy Back Regulations and the Act ("Buy Back")
- 1.2. The Buy Back commenced on Monday, February 03, 2020 and closed on Friday, February 28, 2020. Till the date of closure of Buy Back the Company has utilized ₹ 56,80,97,560/- (Rupees Fifty Six Crores Eighty Lakhs Ninety Seven Thousand Five Hundred Sixty only) represents 94.68% of Maximum Buy Back Offer Size (excluding Transaction Costs) authorised for the Buy Back with an unutilize balance amount of ₹ 3,19,02,440/- (Rupees Three Crores Nineteen Lakhs Two Thousand Four Hundred Forty only) till February 28, 2020 and have bought back 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares, which is 100% of the Maximum Buy Back Shares.
- 1.3. In view of the fact that the Company has bought back 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares, which is 100% of the Maximum Buy Back Shares till February 28, 2020, the Company decided to close the Buy Back on Friday, February 28, 2020. The intimation for closure
- of the Buy Back was issued to the Stock Exchanges on Friday, February 28, 2020. 1.4. The total number of shares bought back under the Buy Back is 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares.
- 2. DETAILS OF THE BUY BACK
- 2.1. The Company bought back an aggregate of 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares represents 100% of the Maximum Buy Back Shares, utilizing a total of ₹ 56,80,97,560/- (Rupees Fifty Six Crores Eighty Lakhs Ninety Seven Thousand Five Hundred Sixty only) (excluding Transaction Costs), which represents 94.68% of the Maximum Buy Back Offer Size. The price at which the Equity Shares were bought back was dependent on the price quoted on the Stock Exchanges. The highest price at which the Equity Shares were bought back was ₹ 186.85 per Equity Share while the lowest price was ₹ 169.40 per Equity Share. The Equity Shares were bought back at an average price of ₹ 177.53 per Equity Share. These prices are based on contract notes issued by Emkay Global Financial Services Limited ("Company's Broker") and excludes Transaction Costs.
- 2.2. The pay-out formalities has been and shall be completed as per settlement mechanism with the Stock Exchanges. The Company is in process of extinguishing 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares that have been bought back and will be extinguished in accordance
- with the provisions of the Buy Back Regulations. 2.3. All Equity Shares bought back were in the demat segment from the Stock Exchanges. As the Buy Back was done from the open market through the Stock Exchanges, the identity of shareholders from whom Equity Shares exceeding one per cent of the total Equity Shares,
- was bought in the Buy Back is not known. 3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN
- 3.1. The capital structure of the Company, as on the date of the Public Announcement ("Pre Buy Back") and as on February 28, 2020

("Post Buy Back") is set forth below:-							
Particulars	Pre Buy Ba	ck	Post Buy Back				
Particulars	No. of Equity Shares	₹ in cr.	No. of Equity Shares	₹ in cr.			
Authorised share capital	17,50,00,000	175.00	17,50,00,000	175.00			
Issued, Subscribed and Paid-up share capital	9,82,13,286	98.21	9,50,13,286*	95.01			

\*The Company is in the process of extinguishing 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares that have been bought back and will be extinguished in accordance with the provisions of the Buy Back Regulations. The share capital post completion of the Buy Back ("Pos Buy Back") is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.

	Pre Buy	Back <sup>(1)</sup>	Post Buy Back <sup>(2)</sup>		
Shareholders	No. of Equity Shares	% of Equity Shares	No. of Equity Shares	% of Equity Shares	
Promoters	1,81,93,310	18.52	1,81,93,310	19.15	
Public Shareholding					
Banks, Financial Institutions, Mutual Funds	1,33,00,898	13.54		80.85	
Individuals	2,25,71,993	22.98			
Indian Public & Corporates	2,07,66,359	21.14			
Insurance Companies	33,66,423	3.43	7,68,19,976		
IEPF	8,86,602	0.90			
Foreign Institutional Investors	1,55,48,358	15.83			
NRIs	15,82,839	1.61			
Others	19,96,504	2.03			
Total	9.82,13,286	100.00	9,50,13,286	100.00	

1. As on January 17, 2020.

2. The Company is in the process of extinguishing 32,00,000 (Thirty Two Lakhs) Equity Shares that have been bought back and will be extinguished in accordance with the provisions of the Buy Back Regulations. The share capital post completion of the Buy Back ("Post Buy Back") is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.

#### MANAGER TO THE BUY BACK



**EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED** 

CIN: L67120MH1995PLC084899 SEBI Reg. No.: INM000011229 The Ruby, 7th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400 028 Website: www.emkayglobal.com Contact Person: Mr. Deepak Yadav **Tel**: 91 22 6612 1212

Fax: 91 22 6624 2355 E-mail: ghcl.buyback@emkayglobal.com

For further details, please refer to the Company's website (https://www.ghcl.co.in/buyback) and the website of the Stock Exchanges (i.e., www.nseindia.com and www.bseindia.com)

#### DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buy Back Regulations, the Board accepts full responsibility for the information contained in this Post Buy Back Public Announcement and confirms that the information included herein contains true, factual and material and does not contain any misleading information.

### For and on behalf of the Board of GHCL Limited

Mr. R S Jalan Managing Director (DIN: 00121260)

Date: February 28, 2020

Place: Noida

sd/-Mr. Raman Chopra Chief Finance Officer & Executive Director (Finance) (DIN: 00954190)

sd/-Mr. Bhuwneshwar Mishra Sr. General Manager & Company Secretary & Compliance Officer (PAN: AIWPM9469M)

PRESSMA

તારીખ: 29.02.2020

**સ્થળઃ** વડોદરા

**નોંઘણીકૃત કાર્યાલય સ્વા**યાના, પ્લોક આંખાલા) કાલીના, સાતાકુઝ (પૂર્વ), મુંબઈ– 400 098 **શાખાનું કાર્યાલયઃ** વડોદરા

એલ&ટી હાઉસિંગ કાઈનાન્સ લિમિટેડ જાલસ્ટા શાંગનન સાંગાનના લાનાટ. (અગાઉ ઈન્ડો પેસિફિક હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ એઆઈજી હોમ ફાઈનાન્સ ઈન્ડિયા તિ. અને વેઈઝમાન હોમ્સ લિ. તરીકે ઓળખાતી)

L&T Financial Services Housing Finance

#### **GHCL Limited**



#### February 28, 2020

Sr. General Manager,
Listing Operations,
BSE Limited

1st Floor, P. J. Towers, Dalal Street,

Mumbai 400 001 SCRIP Code: **500171** 

Dear Sir / Madam,

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),

Mumbai - 400 051 SCRIP Code: **GHCL** 

# Sub: Buy Back of securities of GHCL Limited from the Open Market in terms of SEBI (Buy Back of Securities) Regulations, 2018

- I, Bhuwneshwar Mishra, Sr. General Manager & Company Secretary of the Company (M/s GHCL Limited) hereby certify that:
- 1. All the equity shares bought back shall be extinguished within seven days of the last date of completion of buy-back.
- 2. The Company shall not raise further capital for a period of one year from the closure of the buy-back offer, except in discharge of its subsisting obligations.
- 3. The Company shall issue within two days of the expiry of buy-back period, a public advertisement as per Regulations 24(vi) of the SEBI (Buy Back of Securities) Regulations, 2018 and will submit a copy of the same to stock exchanges.

Yours faithfully

For GHCL Limited

Bhuwneshwar Mishra

Sr. General Manager & Company Secretary

Membership No.: F5330

Place: Noida

B- 38, GHCL House, Institutional Area, Sector- 1, Noida, (U.P.) - 201301, India. Ph. : +91-120-2535335, 4939900, Fax : +91-120-2535209 CIN : L24100GJ1983PLC006513, E-mail : ghclinfo@ghcl.co.in , Website : ghclinfo@ghcl.co.in



To, Sr. General Manager, Listing Operations, BSE Limited, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001.

Dear Sir,

Sub: Buy Back of securities of GHCL Limited from the Open Market in terms of SEBI (Buy Back of Securities) Regulations, 2018

We, the Lead Manager, to the buyback of securities of GHCL Limited hereby certify that:

- 1. The Company was able to implement the offer
- 2. All the formalities relating to process of Open Market route through Reverse Book Building / Stock Exchange mechanism have been complied in conformity with the provisions of Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations 2018 ("Buy Back Regulations") and Companies Act, 2013. The Company has to extinguish bought back Equity Shares in compliance with the Buy Back Regulations.
- 3. No information from any statutory authority affecting the Buyback has been withheld by us without informing the Exchange.
- 4. We have fulfilled all the applicable obligations as required under Regulation 25 of the Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations 2018. The final report on GHCL Limited Buy Back, will be submitted to the Board within 15 days from the date of expiry of the Buy Back period.

Thanking you, Yours faithfully, For Emkay Global Financial Services Limited

Authorised Signatory

Name: Mr. Deepak Yadav

Designation: AVP – Investment Banking Email ID: deepak.yadav@emkayglobal.com Contact No.: 66242412 / 9821797426

Date: March 02, 2020

